

बड़ौदा गिफ्ट कार्ड – बड़ौदा कनेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन खरीद का विकल्प

हमें बड़ौदा कनेक्ट के उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ौदा गिफ्ट कार्ड के ऑनलाइन खरीद की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है. सुलभ-संदर्भ के लिए इस सुविधा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है :

- यह सुविधा ट्रांजेक्शन अधिकार वाले बड़ौदा कनेक्ट रिटेल उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है.
- उपयोगकर्ता (कार्ड क्रेता) द्वारा तीन सूचनाएं यथा राशि, लाभार्थी का नाम तथा उसका शिपिंग पता उपलब्ध करानी होंगी.
- क्रेता की ओर से लाभार्थी को एक आकर्षक ढंग से पैक किया हुआ गैर-सक्रिय बड़ौदा गिफ्ट कार्ड सीधा भेज दिया जाता है ताकि यह 2-4 दिनों के अंदर उसे प्राप्त हो सके.
- ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड समान प्रभार पर जारी किए जाते हैं तथापि समय पर डिलिवरी हेतु अतिरिक्त कूरियर प्रभार लिया जाता है.

गिफ्टकार्ड ऑनलाइन खरीदने की प्रक्रिया

बड़ौदा कनेक्ट में लॉगिन करने के पश्चात उपयोगकर्ता को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराने होते हैं :

- 1) होम पेज : बड़ौदा गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करें
- 2) गिफ्ट कार्ड जारी करना : इस पृष्ठ पर गिफ्ट कार्ड प्रभार तथा नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है. उपयोगकर्ता को राशि का उल्लेख करना होगा तथा गिफ्ट कार्ड विवरण के लिए 'continue' पर क्लिक करना होगा.
- 3) नए गिफ्ट कार्ड के लिए अनुरोध : गिफ्टकार्ड के लिए अनुरोध निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाता है –
 - क) **खाता चुनना** : उपयोगकर्ता को वह खाता क्रमांक चुनना होगा जिससे कार्ड राशि एवं प्रभार काटे जाएंगे. डिलिवरी को शेड्यूल करने का विकल्प भी उपलब्ध है.
 - ख) **शिपिंग पता प्रविष्ट करना** : गिफ्ट कार्ड डिलिवर किए जाने हेतु ग्राहक का पता स्वतः सलेक्ट हो जाएगा. यदि क्रेता गिफ्ट कार्ड किसी और के लिए भेजना चाहता है तो लाभार्थी का पता "Ship to new address" को क्लिक करते हुए डालना होगा.
 - ग) **पुष्टि** : लेन-देन की पुष्टि के लिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा.
- 4) दिन की समाप्ति पर गिफ्ट कार्ड (ऑनलाइन खरीदा हुआ) लाभार्थी को भेजा जाएगा.